

पंजीकृत डाक द्वारा

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन सेक्टर-6 नोएडा(उ0प्र0)

संख्या नोएडा/मु0वा0नि0/2013/III - 277/ 710

दिनांक: 6/12/13

सेवा में,

मैसर्स आई0वी0आर0 प्राइम डबलपर्स (आवाडी) प्रा0 लि0,

1114, हेमकुण्ट, चैम्बर्स, 89, नेहरू प्लेस,

नई दिल्ली - 110019

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 28.11.2013 के संदर्भ में आप द्वारा प्रस्तावित ग्रुप हाऊसिंग भवन निर्माण की उप विभाजित भूखण्ड संख्या जीएच - 01, सैकटर - 118, नोएडा पर निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. यह भवन मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष (निर्माण अवधि होने की दशा में) तक वैध है।
2. भवन मानचित्रों की इस स्वीकृति से इस भूखण्ड से सम्बन्धित किसी भी शासकीय निकाय जैसे (नगरपालिका, नोएडा प्राधिकरण) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित(एफेक्टेड) नहीं माना जायेगा।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मौगा जायेगा तो वह किसी विना आपत्ति के देय होगा।
5. दरवाजे व खिड़कियाँ इस तरह से लगाये जायेंगे कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि या सड़क की ओर बढ़ाव(प्रोजेक्टेड) न हों।
6. बिजली की लाईन से पॉच फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य न किया जायेगा।
7. आवंटी संख्या द्वारा भवन सामग्री भूखण्ड के सामने रखने से सड़क पर यातायात अवरुद्ध नहीं होना चाहिए।
8. स्वीकृत भवन मानचित्रों का एक सैट निर्माण रथल पर रखना होगा ताकि उसकी गौंके पर कभी भी जॉच की जा सके। रथल पर निर्माण कार्य स्वीकृत भवन मानचित्रों के स्पेसीफिकेशन नोएडा भवन नियमावली के नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा। आवंटी संख्या को तहखाने का निर्माण कार्य पूरा करने के उपरान्त तहखाने का भवन प्रकोष्ठ विभाग नोएडा द्वारा निरीक्षण कराने के बाद ही भूतल का निर्माण कार्य शुरू करेगा। अन्यथा स्वीकृत भवन मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
9. आवंटी संख्या को मैजेनाइन तल/अन्य तल का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही कराना होगा अन्यथा स्वीकृत भवन मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

10. सड़क पर अथवा बैक लेन में कोई ऐस्य अथवा स्टैप्स नहीं बनाये जायेगे। वह कार्य अपनी ही भूमि पर करें।
11. आवंटी संरक्षा जल एवं मल की निकासी की व्यवस्था का निरीक्षण नोएडा(भवन प्रकोष्ठ) विभाग से करायेगा एवं निरीक्षण के उपरान्त ही आवंटी उसे ढकेगा।
12. यह भानचित्र खीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा बशर्ते पट्टेदार को पट्टे के अधिकार उपलब्ध हों अथवा उसको पुर्जीवित करा लिया हो। पट्टे के अधिकार उपलब्ध/पुर्जीवित न होने की दशा में मानचित्र की वैधता, पट्टे की वैधता तिथि तक समझा जायेगा।
13. आवंटी संरक्षा को अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करते समय सम्बन्धित विभाग से नियमानुसार समयवृद्धि पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
14. प्रस्तावित युप हाउसिंग योजना के निर्माण के सन्दर्भ में आवंटी संरक्षा को उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (Promotion of Construction, ownership & Maintenance) एक्ट, 2010; तथा इसके अधीन जारी निर्देशों एवं सुरांगत प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
15. ब्रोशर, पट्टा प्रलेख, उप पट्टा प्रलेख, महायोजना, भवन विनियमावली आदि के यथा संशोधित अध्यावधिक नियम, शर्तों, प्रतिबन्धों के प्रावधान इस खीकृति पर भी लागू माने जायेगे।
16. सन्दर्भित योजना में भूजल की अनधिकृत निकासी एवं दुरुपयोग नहीं किया जायेगा एवं प्रश्नगत क्षेत्र की हाइडॉलोजी के दृष्टिगत रेनवाटर हावेस्टिंग/भू-जल दोहन की व्यवस्था केन्द्रीय भू-जल परिषद अथवा उत्तर प्रदेश भू-जल विभाग के प्रावधानों के अन्तर्गत करना होगा।
17. योजना में भवन निर्माण हेतु जलापूर्ति के लिए किसी भी दशा में भू-गर्भ जल दोहन, केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण से अनापत्ति पत्र प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
18. योजना में भवन निर्माण हेतु जलापूर्ति के लिए नोएडा प्राधिकरण से जल की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
19. सम्पूर्ण परिसर में विद्युत सुरक्षा, अग्निशमन सुरक्षा, आपदा प्रबन्धन, भूकम्परोधी निर्माण एवं स्ट्रक्चरल सैफटी/स्टैबिलिटी, 30 मीटर से ऊँचे भवनों हेतु एयरपोर्ट अथोरिटी आदि के मानकों एवं सम्बन्धित विभागों की गाइड लाइन्स/मानकों/नियमों/शर्तों/शासनादेशों एवं उनकी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के निर्देशों का अनुपालन समस्त विकास कार्य एवं भवनों के निर्माण तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास में किया जायेगा।
21. सभी भवनों आदि के निर्धारित उपयोग में नोएडा महायोजना 2031 के जोनिंग एवं सब डिवीजन रेग्युलेशन तथा नोएडा भवन विनियमावली - 2010 (यथा संशोधित एवं प्रभावी) में अनुमन्य कियाये एवं उपयोग तथा उसके स्क्रुटिंग यूज में अनुमन्य कियाये एवं उपयोग के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के उपयोग की अनुमति किसी भी दशा में नहीं होगी। यह प्रतिवन्ध मूल पट्टाधारक, उप पट्टाधारक, किरायेदार/उपयोगकर्ता आदि सभी पर लागू होगा।
22. पंजीकरण एवं अवंटन पुस्तिका की शर्त के अनुसार नोएडा प्राधिकरण द्वारा परियोजना के क्रियान्वित करने एवं परियोजना को पूर्ण कर क्रियाशील किए जाने तक सतत् समीक्षा की जायेगी।

*[Handwritten signatures]*

23. पंजीकरण एवं आबंटन पुस्तिका एवं पट्टा प्रलेख की शर्तों एवं नियमों के अनुसार आबंटी को परियोजना पूर्ण करने हेतु निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत परियोजना पूर्ण करनी होगी।
24. सभी प्रकार के विकास कार्य अवस्थापना सुविधायें तथा भवनों का निर्माण कार्य समय-समय पर शासकीय नीति/निर्देशों, बी0आई0एस0/आई0एस0 के लागू सुसंगत कोड एवं मानकों के अनुरूप किया जायेगा। तदुपरान्त आवेदन करने के साथ नियमानुसार उनका कम्पलीशन सर्टिफीकेट प्राप्त करने के उपरान्त ही अधीभोग में लाया जायेगा।
25. सम्पूर्ण परिसर एवं उसके भीतर निर्मित सभी भवनों में शासन की नीति के अनुसार उर्जा संरक्षण एवं वैकल्पिक उर्जा का उपयोग, जलापूर्ति वितरण व्यवस्था एवं भूमिगत जल के उपयोग, जल संरक्षण एवं पुर्णवितरण, वर्षा जल संचयन, परिस्थितिकी एवं पर्यावरण संरक्षण, भूमि खुदाई एवं उत्खन्न, वृक्षारोपण/लैन्ड स्केपिंग एवं सामाजिक वानिकी, सीवेज डिस्पोजल एवं सॉलिड वेर्ड मैनेजमेन्ट आदि की व्यवस्था संबंधित शासकीय विभागों की गाइड लाइस/मानकों/नियमों/शर्तों एवं उनकी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के निर्देशों के अनुसार करनी होगी।
26. सम्पूर्ण परिसर एवं उनके भीतर निर्मित सभी विकास कार्यों, सामुदायिक एवं जन सुविधाएँ, आवस्थापना सुविधाएँ, सभी स्ट्रक्चर्स, सभी प्रकार के भवनों आदि का गुणवत्ता के साथ विकास, निर्माण, परिचालन, रख-रखाव, अनुरक्षण आवेदक संरक्षा को रखना होगा। इस सम्बन्ध में नोएडा प्राधिकरण एवं शासन द्वारा समय-समय पर नीतिगत निर्णय एवं निर्देशों का पूर्णतया पालन करना होगा।
27. सम्पूर्ण परिसर के भीतर निर्मित परिसर/भवन/स्ट्रक्चर/सामुदायिक एवं जन सुविधाओं/उपयोग आधारित क्रियाओं आदि का उंप विभाजन, सब तीज, सब लेटिंग आदि आवेदक संस्था द्वारा आबंटन नियमावली, पट्टा प्रलेख, नोएडा प्राधिकरण के नियमों व नियिमों, भवन विनियमावली - 2010, नोएडा महायोजन - 2031 (यथा संशोधित एवं प्रभावी) के प्राविधानों के अन्तर्गत बिना प्राधिकरण के यथावश्यक पुर्वानुमति प्राप्त किए आवेदक द्वारा नहीं किया जाएगा।
28. परियोजना के सम्पूर्ण परिसर एवं उसके भीतर निर्मित सभी भवनों में शारिरिक रूप से अक्षम एवं अरावत्त रिक्तियों के लिए आवश्यक सुविधाएँ एवं सुगम्यता के दृष्टिगत अवरोधभुक्त परिसर के रूप में विकास एवं निर्माण किया जायेगा।
29. परियोजना के समस्त भवनों का निर्माण, आन्तरिक एवं बाह्य विकास कार्य, आवस्थापना सुविधायें, जन सेवाये एवं सामुदायिक सुविधायें आदि का विकास पूर्ण करने पर आनेवाला समस्त व्यय आवेदक को स्वयं वहन करना होगा, जिसमें देय समस्त शुल्क, चार्ज, टैक्स, लेबी आदि (यथा लागू) भी सम्मिलित है।
30. परिसर में प्रस्तावित हरित क्षेत्रफल एवं वृक्षों का रख-रखाव गुणवत्तापूर्वक आबंटी को स्वयं अपने व्यय पर करना होगा।
31. ग्रीन बिल्डिंग के लिए भवन विनियमावली-2011(द्वितीय संशोधन) के अध्याय 3 के विन्दु सं0 24.8(14) में ग्रीन भवन निर्मित करने पर उसका अनुमन्य एफ0ए0आ0/उपलब्ध एफ0ए0आ0 का 5 प्रतिशत अतिरिक्त एफ0ए0आ0 (फर्शीय तल का अनुपात) निःशुल्क अनुमन्य होगा (इस एफ0ए0आ0 में सुविधा का 15 प्रतिशत सम्मिलित नहीं होगा) एवं आबंटी संरक्षा को भवन के लिए लीड/ग्रीहा से एक रेटिंग प्रमाणक प्राप्त कर प्रस्तुत करना है और प्रत्येक 5 वर्षों के पश्चात अनुपालन का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में

विफल रहने की दशा में प्राधिकरण उसे एक माह का नोटिस देने के बाद क्रय योग्य एफ०ए०आर० की लागत का 200 प्रतिशत की दर से निःशुल्क दी गई एफ०ए०आर० का प्रशंसन फीस प्रभारीत करेगा।

32. यह रवीकृति प्राधिकरण द्वारा कब्जा दिये गये क्षेत्रफल के सापेक्ष ही अनुमन्य होगी।
33. आपके द्वारा जमा कराए गए शपथ पत्र के आधार पर आपको संदर्भित भूखण्ड के लिए वर्तमान तक देय शुल्क का भुगतान भवन मानचित्र रवीकृति की तिथि से 3 माह के अन्दर करना होगा। देय शुल्क का भुगतान निर्धारित अवधि में नहीं करने की दशा में यह भवन मानचित्र स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जाएगी।

स्वीकृत मानचित्र इस पत्र के साथ सलंग्न है। भवन कार्य मानचित्र की वैधता तिथि के अन्दर पूरा होने के उपरान्त अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दे तथा बिना व प्रमाण लिए भवन को प्रयोग में ना लायें।

|  |                        |
|--|------------------------|
| • भूखण्ड का क्षेत्रफल                      | = 1,42,967.00 वर्ग मी० |
| • अनुमन्य भू-आच्छादित क्षेत्रफल @30%       | = 42,890.10 वर्ग मी०   |
| • अनुमन्य एफ०ए०आर० @ 2.0                   | = 2,85,934.00 वर्ग मी० |
| • ग्रीन बिल्डिंग के लिए अतिरिक्त 5% के साथ | = 3,00,230.70 वर्ग मी० |
| कुल अनुमन्य एफ०ए०आर०                       |                        |

विभिन्न तलों पर किये गये प्रस्तावित क्षेत्रफल का तलबार विवरण निम्नानुसार है:-

| तल                                   | अनुमन्य क्षेत्रफल<br>(वर्ग मी०) | प्रस्तावित क्षेत्रफल एफ०ए०आर०<br>(वर्गमी०) |
|--------------------------------------|---------------------------------|--|
| पोडियम/स्टिल्ट/भूतल<br>(एफ०ए०आर०)    |                                 | 1753.27                                    |
| प्रथम तल (1 <sup>st</sup> fl.)       |                                 | 17730.91                                   |
| द्वितीय तल (2 <sup>nd</sup> fl.)     |                                 | 16708.57                                   |
| तृतीय तल (3 <sup>rd</sup> fl.)       |                                 | 16780.57                                   |
| चतुर्थ तल (4 <sup>th</sup> fl.)      |                                 | 16780.57                                   |
| पंचम तल (5 <sup>th</sup> fl.)        |                                 | 14317.93                                   |
| छठवां तल (6 <sup>th</sup> fl.)       | शेष                             | 14317.93                                   |
| सातवां तल (7 <sup>th</sup> fl.)      | एफ०ए०आर०                        | 10868.25                                   |
| आठवां तल (8 <sup>th</sup> fl.)       |                                 | 10868.25                                   |
| नौवा तल (9 <sup>th</sup> fl.)        |                                 | 10868.25                                   |
| दसवां तल (10 <sup>th</sup> fl.)      |                                 | 10868.25                                   |
| ग्यारहवां तल (11 <sup>th</sup> fl.)  |                                 | 10868.25                                   |
| बारवां तल (12 <sup>th</sup> fl.)     |                                 | 10868.25                                   |
| तेरहवां तल (13 <sup>th</sup> fl.)    |                                 | 10868.25                                   |
| चौदहवां तल (14 <sup>th</sup> fl.)    |                                 | 10868.25                                   |
| पन्द्रहवां तल (15 <sup>th</sup> fl.) |                                 | 10868.25                                   |
| सोलहवां तल (16 <sup>th</sup> fl.)    |                                 | 10868.25                                   |



|   |  |                                    |
|---|--|------------------------------------|
| सत्रहवां तल (17 <sup>th</sup> fl.)  |  | 10868.25                           |
| अट्टारहवां तल (18 <sup>th</sup> fl.)  | शेष<br>एफ०ए०आर०  | 10868.25                           |
| उन्नसवां तल (19 <sup>th</sup> fl.)  |  | 10868.25                           |
| दीसवां तल (20 <sup>th</sup> fl.)  |  | 10868.25                           |
| इकीसवां तल (21 <sup>th</sup> fl.)   |  | 10868.25                           |
| बाइसवां तल (22 <sup>th</sup> fl.)   |  | 10868.25                           |
| तेइसवां तल (23 <sup>th</sup> fl.)   |  | 10868.25                           |
| चौबीसवां तल (24 <sup>th</sup> fl.)  |  | 10868.25                           |
| वाणिज्यक क्षेत्रफल  |  | 2859.00                            |
| मीटर रुम  |  | 128.00                             |
| अनुमन्य से अधिक सेवा<br>क्षेत्रफल   |  | 2244.07                            |
| कुल एफ.ए.आर.  | 3,00,230.70  | 2,99,105.32                        |
| तहखाना  | सैटबेक छोड़ने के पश्चात शेष<br>क्षेत्रफल (पार्किंग एवं सर्विसिंज हेतु)   | 104342.78                          |
| स्टिल + पोडियम<br>(नॉन एफ०ए०आर०)<br>(पार्किंग हेतु)   |  | 20671.34 + 52943.52<br>= 73,614.86 |
| सेवा क्षेत्रफल  | 42890.10   | 42890.10                           |
| कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल<br>(एफ०ए०आर०, तहखाना,<br>पोडियम, स्टिल एवं सेवा<br>क्षेत्रफल सहित) | = 299105.32 + 104342.78 + 73,614.86 + 42890.10<br>= 5,19,953.06 वर्ग मी० |                                    |

प्रस्तावित भू-आच्छादन क्षेत्रफल = 26429.72 वर्ग मी० ( 18.48 %)

प्रस्तावित एफ०ए०आर०

(ग्रीन बिल्डिंग के प्रावधान सहित)

= 2,99,949.60 वर्ग मी० ( 2.10 )

प्रस्तावित ऊँचालिंग यूनिट्स

= 2335 यूनिट्स

For Ryo  
Ryo S. Shrestha

Signature: *[Signature]*

For Ryo

Signature: *[Signature]*

प्रतिलिपि:

- विशेष कार्याधिकारी (युप हा०) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

नाम.....  
पर्सनल इम्प्रेस्ट  
दुष्प्र प्राप्ति एवं दुष्प्राप्ति का  
कार्यवाही  
6/12/13